

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2012

क्र. एफ 63-08-2008-बीस-3.—राज्य शासन एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग

में लाते हुए मध्यप्रदेश राष्ट्रीय छात्र सेना अधीनस्थ तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाये, अर्थात् :-

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वर्तमान वेतनमान तथा ग्रेड-पे (5)
1	अधीक्षक	01	मध्यप्रदेश राष्ट्रीय छात्र सेना अधीनस्थ तृतीय श्रेणी.	9300—34800+3600 ग्रेड पे
2	सहायक अधीक्षक	06	-तदैव-	9300—34800+3200 ग्रेड पे
3	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	03	-तदैव-	5200—20200+2400 ग्रेड पे
4	सहायक ग्रेड-1	32	-तदैव-	5200—20200+2800 ग्रेड पे
5	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	03	-तदैव-	5200—20200+2400 ग्रेड पे
6	लेखापाल	47	-तदैव-	5200—20200+2400 ग्रेड पे
7	सहायक ग्रेड-2	117	-तदैव-	5200—20200+2400 ग्रेड पे
8	सहायक ग्रेड-3/स्टोर कीपर	168	-तदैव-	5200—20200+1900 ग्रेड पे
9	एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर	02	अराजपत्रित (तकनीकी)	5200—20200+2800 ग्रेड पे
10	शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर	03	-तदैव-	5200—20200+2800 ग्रेड पे
11	वाहन चालक	93	-तदैव-	5200—20200+1900 ग्रेड पे

No. F 63-8-2008-XX-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh National Cadet Corps Subordinate Class-III NCC Service Recruitment Rules, 1973 namely :—

AMENDMENT

1. In the said rules, for Schedule-I, the following Schedules shall be substituted, namely :—

S. No. (1)	Name of the posts included in the Service (2)	No. of Posts (3)	Classification (4)	Present Scale of Pay and Grade Pay (5)
1	Superintendent	01	Madhya Pradesh NCC sub-ordinates Class-III Services.	9300—34800+3600 Grade Pay
2	Assistant Superintendent	06	—do—	9300—34800+3200 Grade Pay
3	Senior Auditor	03	—do—	5200—20200+2400 Grade Pay

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Assistant Grade-I	32	Madhya Pradesh NCC sub-ordinates Class-III Services.	5200—20200+2800 Grade Pay
5	Junior Auditor	03	—do—	5200—20200+2400 Grade Pay
6	Accountant	47	—do—	5200—20200+2400 Grade Pay
7	Assistant Grade-II	117	—do—	5200—20200+2400 Grade Pay
8	Assistant Grade-III/Store keeper	168	—do—	5200—20200+1900 Grade Pay
9	Aero Modelling Instructor	02	Non-Gazetted (Technical).	5200—20200+2800 Grade Pay
10	Ship Modelling Instructor	03	—do—	5200—20200+2800 Grade Pay
11	Driver	93	—do—	5200—20200+1900 Grade Pay

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बाबूलाल जैसवार, अवरसचिव.